



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 22—अक्टूबर 28, 2011 (आश्विन 30, 1933)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22—OCTOBER 28, 2011 (ASVINA 30, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

दिनांक 5 अक्टूबर 2011

नई दिल्ली-110101, दिनांक 03 अक्टूबर 2011

सं. ए-22012/1/2011-पीएमई--श्री एल. मदन कुमार आर. की क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद में उप पासपोर्ट अधिकारी के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप, उन्होंने दिनांक 3 अक्टूबर, 2011 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में अवर सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

संजय लोहिया, निदेशक

सं. ए-22012/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री पुलक चटर्जी, आईएएस (यू.पी. : 74) (सेवा-निवृत्त) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 3 अक्टूबर, 2011 (अपराह्न) से अनुमोदित मानक नियम और शर्तों पर प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव नियुक्त करती हैं। उनकी नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल तक अथवा अगला आदेश होने, इसमें से जो भी पहले हो, तक की जाती है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

नई दिल्ली-110101, दिनांक 28 सितम्बर 2011

दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. ए-22012/1/2011-पीएमई--विश्व बैंक, वाशिंगटन, सं.रा.अ. में कार्यकारी निदेशक नियुक्त होने के फलस्वरूप श्री एम. एन. प्रसाद, आई. ए.एस. (बीएच : 1972) (सेवानिवृत्त) ने दिनांक 28 सितम्बर, 2011 (अपराह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एल. मदन कुमार आर., अवर सचिव

सं. ए-22012/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री टी.के.ए. नायर, भा. प्र. से. (पीबी : 63) (सेवा-निवृत्त) द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2011 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव के पद का कार्यभार छोड़ देने के उपरान्त उन्हें उसी दिन से अगले आदेश होने तक राज्यमंत्री के रैंक और स्तर पर प्रधान मंत्री के सलाहकार के पद पर नियुक्ति करती हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2011

सं. आरएस./3/7/1/2011/91-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत अनुवादक श्री राजेश कुमार साह को 26 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संपादक के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. आरएस.43/1/2010/92-कार्मिक--न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन गठित और माननीय न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली समिति के कार्यकाल के समाप्त हो जाने पर निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं 10 अक्टूबर, 2011 (अपराह्न) से समाप्त हो जाएंगी:--

1. श्री के. डी. सिंह, सचिव
2. श्री एच. एस. कपूर, रजिस्ट्रार
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद, उप निदेशक
4. श्री ललित मोहन शर्मा, निजी सचिव
5. श्री सुखविन्दर सिंह ग्रेवाल, निजी सचिव

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस.43/1/2010/93-कार्मिक--न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन गठित और माननीय न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली समिति के कार्यकाल के समाप्त हो जाने पर समिति के संयुक्त सचिव श्री जे. बी. महापात्रा की सेवाएं 10 अक्टूबर, 2011 के अपराह्न से समाप्त हो जाएंगी और उनकी सेवाएं 10 अक्टूबर, 2011 (अपराह्न) से उनके मूल विभाग अर्थात् राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को सौंप दी जाएंगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. आरएस.20/1/2011/99-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री विजय प्रकाश वशिष्ठ, अधिशासी अधिकारी 30 सितम्बर, 2011 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस.20/1/2011/100-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री राजकुमार वाही, अधिशासी अधिकारी (स्व-स्थानिक) 30 सितम्बर, 2011 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. ए-19013/5/2006--(प्रशासन)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में दिनांक 29 सितम्बर 2011 के पूर्वाह्न से श्री जी. मुरलीधरन पिल्लै, संयुक्त निदेशक को वेतन बैंड-4 के वेतनमान 37,400--67,000/- रुपये ग्रेड वेतन 8,700/- रुपये में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. एस. एस. नायर, उप सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. ई.15012/17/2011-अनु-IV--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उप-नियम (1) के परन्तुक के अनुसरण में सितम्बर 30, 2011 के समसंख्यक आदेश के द्वारा श्री शशि कान्त, वैज्ञा/ईजी 'एससी', द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर को सेवा से बर्खास्त करती हैं।

जी. चन्द्रशेखर, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. ए-12025/3/2010-प्रशासन-1--योजना आयोग के दिनांक 4 फरवरी, 2011 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नामों के आगे अंकित अवधि तक योजना आयोग में पीबी-3 में रुपये 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रुपये 7,600/- के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	नाम	बढ़ाई गई अवधि से	तक
1.	डॉ. आर. पी. सिंह, उपसलाहकार (शिक्षा)	09.08.2011	31.12.2011
2.	मिस रूहि सिद्दीकी, उप सलाहकार (वीएससी)	09.08.2011	31.12.2011
3.	श्री प्रेम सिंह, उप सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन)	16.09.2011	31.12.2011

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति पर उपर्युक्त अधिकारियों को उप-सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता और न ही उप-सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप-सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जायेगा।

जी. राजीव, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04 अक्टूबर 2011

सं. ए-19011/80/2011-यूआईडीएआई--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.08.2011 के का. ज्ञा. सं.-6/43/2005-ई ओ (एस एम-1) और अन्तर-राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय के दिनांक 03.10.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-19011/2/2011-आई एस सी द्वारा सूचित किए गए अनुसार मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अनुसरण में श्री अमिताभ खरकवाल (भारतीय डाक सेवा : 89) ने दिनांक 04.10.2011 की पूर्वाह्न से मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, दिल्ली में गैर-केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपये के वेतन बैंड में 13.11.2013 तक की अवधि हेतु अथवा अगले आदर्शों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहायक महानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

दिव्या प्रसाद, सहायक महानिदेशक

भारतीय निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

सं. ए-19/जी-ए/92--श्री जय पी. प्रकाश, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एएम : 1982), जिनकी सेवाएं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.08.2006 के संदर्भ सं. 14/5/2006-ई. ओ. (एस.एम.-1) द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग में निवर्तन के लिए सुनिश्चित रखी गई थीं, उन्हें एतद्वारा, दिनांक 04.10.2011 (अपराह्न) से उनका कार्यकाल समाप्त होने पर संवर्ग में रिपोर्ट करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग सचिवालय में उप निर्वाचन आयुक्त के पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

स्टैण्डहोप युहलुंग, सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2011

सं. ए-12034/1/2011/प्रशा. IV-(वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री प्रत्यूष शंकर शुक्ला को दिनांक 28.7.2011 (पूर्वाह्न) से माननीय विधि और न्याय मंत्री (श्रीसलमान खुर्शीद) के वैयक्तिक अनुभाग में वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) में रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. मूल नियम-10 के नीचे उल्लिखित वित्त मंत्रालय के दिनांक 16.12.1960 के का.ज्ञा. सं. एफ-67(21)-ई-V/60 और दिनांक 24.8.1966 के का.ज्ञा. सं. एफ 25(24)-ई-V/66 के अनुसार, श्री प्रत्यूष शंकर शुक्ला की नियुक्ति अन्तिम है और उनके चिकित्सा आधार पर योग्य पाए जाने के अध्वधीन है। यदि श्री शुक्ला को चिकित्सा आधार पर अयोग्य पाया जाता है, तो उन्हें चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड के निष्कर्षों से अवगत कराए जाने की तारीख से एक माह की अवधि की समाप्ति पर, यदि इस दौरान दोबारा चिकित्सा जांच करवाने के लिए

उनकी ओर से कोई अपील नहीं की जाती है अथवा यदि ऐसी अपील की जाती है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो दोबारा चिकित्सा जांच का मामला अंतिम रूप से निपटारा जाने के पश्चात् उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

3. श्री प्रत्यूष शंकर शुक्ला की यह नियुक्ति माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के प्रसादपर्यन्त और उनके कार्यकाल की सहवर्ती है।

आशा सोटा, अवर सचिव

सं. ए-12034/1/2011/प्रशा. IV-(वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री सुमित वधवा को दिनांक 28.7.2011 (पूर्वाह्न) से माननीय विधि और न्याय मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) के वैयक्तिक अनुभाग में वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) में रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री सुमित वधवा की यह नियुक्ति माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के प्रसादपर्यन्त और उनके कार्यकाल की सहवर्ती है।

आशा सोटा, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. ए-38013/03/2011/प्रशा. IV-(एल.ए.)--निवर्तन की आयु होने पर, श्रीमती रीना सेन, रोकड़ अधिकारी, विधि कार्य विभाग, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

आशा सोटा, अवर सचिव

सं. ए-38012/05/2011/प्रशा. IV-(एल.ए.)--निवर्तन की आयु होने पर, श्री सी. ओ. राजन, निदेशक, विधि कार्य विभाग, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आशा सोटा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. आई-18012/4/2011-आईपीएस-1--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के श्री के. डी. पराशर को दिनांक 20.12.2006 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

आपदा प्रबंधन प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. 45011/4/2010-ए डी (सी डी)--राष्ट्रपति, श्री ओम प्रकाश की परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर उन्हें दिनांक 16.06.1996 से गृह मंत्रालय की महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा इकाई में अग्निशमन सलाहकार के पद पर मूल रूप से नियुक्त करती हैं।

अशोक शुक्ला, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. 14015/09/2009-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2008 और 2009 की रिक्तियों पर राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत गुजरात के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए 28 दिसम्बर, 2010 को विनियम 5(5) के अंतर्गत तैयार की गई 12 जुलाई, 2011 को विनियम 7(2) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली जम्मू और कश्मीर संवर्ग राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती हैं :-

चयन सूची 2008-क (वर्ष 2008 की रिक्तियों पर)

क्र. सं. नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री	
#1. मुहम्मद असलम लाइथू	14.06.1952
2. तुषार कांति शर्मा	17.09.1955
3. मुहम्मद अफज़ल भट्ट	31.03.1958
4. मुहम्मद शफी राथेर	27.12.1954
5. सुदर्शन शर्मा	16.01.1954

#क्रम सं. 1 पर नाम राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के मंजूरी के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से सूची में शामिल किया गया है।

चयन सूची 2009 (वर्ष 2009 की रिक्तियों पर)

क्र. सं. नाम		जन्म तिथि
1	2	3
सर्वश्री		
#0.	मुहम्मद असलम लाइथू	14.06.1952
1.	मेहराज अहमद काकरू	02.01.1955

1	2	3
2.	सतीश नेहरू	30.01.1956
3.	परवेज़ अहमद मलिक	15.01.1956
4.	अनल कुमार गुप्ता	08.01.1958
5.	बशीर अहमद खान	03.06.1959
6.	राजकुमार भगत (अ.जा.)	30.09.1958
7.	अब्दुल मजीद मीर	20.03.1955
\$8.	मुहम्मद युसुफ डार	20.05.1955
9.	श्रीमती निर्मल शर्मा	01.02.1958
10.	शफात नूर बरलास	13.05.1955
11.	अब्दुल लतीफ देवा	01.01.1957
12.	रमेश कुमार कौल	21.02.1955
13.	खुशीद अहमद शाह	26.04.1960
14.	मुहम्मद शरीफ सूद (अ.ज.जा.)	08.10.1955
15.	जाफर अहमद भट्ट	09.04.1956
16.	अब्दुल माजीद गनाई	29.04.1955

#क्र. सं. 0 पर नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार शामिल किया गया है और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से सूची में शामिल किया गया है।

\$क्र. सं. 8 पर नाम राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से सूची में शामिल किया गया है।

2. चयन सूचियों में उपर्युक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना निम्नलिखित के अध्यक्षीन है :-

(क) एलपीए सं. 206/2009 शीर्षक जम्मू कश्मीर सरकार बनाम नजीर अहमद शेख और अन्य तथा अन्य याचिकाएं यदि कोई इस मुद्दे पर लम्बित हो।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य बनाम अब्दुल माजीद वानी तथा अन्य के मामले में एलपीए सं. 106/2011 में दिनांक 02.06.2011 के अंतरिम निदेश और;

(ग) अजय खजूरिया बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य तथा अन्य के मामले में एस डब्ल्यू पी सं. 967/2004 में पुनरीक्षा याचिका सं. 16/2011 में दिनांक 8.6.2011 के अंतरिम निदेश।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. 14012/31/2011-अ.भा.से.(III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करती है :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
	(सर्वश्री)		
1.	सुश्री अन्तरा आचार्य	2006	11.12.2008
2.	सुश्री रश्मि कमल	2006	29.08.2008
3.	तन्मय चक्रवर्ती	2006	29.08.2008
4.	येलूचूरी रत्नाकर राव	2006	29.08.2008
5.	अनुराग श्रीवास्तव	2007	18.08.2009
6.	निरंजन कुमार	2007	18.08.2009
7.	रजत कुमार सैनी	2007	18.08.2009

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14013/07/2010-अ.भा.से.(III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा)नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 1997 बैच की असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग में रखी गई भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्य, श्रीमती एल. आर. संगमा को दिनांक 28.10.2005 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियमित करती है।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

सं. 24012/11/2006-स्थापना(ख)--राष्ट्रपति, श्री विश्वजीत बंधोपाध्याय, आई.सी.ओ.ए.एस. (1992), को कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता में दिनांक 28 सितम्बर, 2011 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय : प्रोटोकॉल (एफ) उप प्रमुख

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2011

सं. डी-III/460/सी एफ-32/2010--भारत की राष्ट्रपति, बेंगलुरु में कोटे द आईवर गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री नवीन बंगलौर लक्ष्मीकांत की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती है।

श्री नवीन बंगलौर लक्ष्मीकांत के कौंसली क्षेत्राधिकार में बेंगलुरु शहर होगा, जिसका केंद्र बेंगलुरु होगा।

दीपक मिगलानी, प्रोटोकॉल (एफ) उप प्रमुख

दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. डी-III/460/सी एफ-22/2011--भारत की राष्ट्रपति मुंबई में इराक गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में श्री राद खलील मुहम्मद अल-खलील की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती है।

श्री राद खलील मुहम्मद अल-खलील के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा राज्य होंगे, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

दीपक मिगलानी, प्रोटोकॉल (एफ) उप प्रमुख

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2011

सं. 90 (फा. सं. ए 19013/27/2011-प्रशा-1)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.8.2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I(यू) के अनुसरण में विधि एवं न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री शंकरानंद भारती, को दिनांक 19.08.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक निम्न शर्तों पर तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये) में राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

- उपर्युक्त तदर्थ प्रोन्नति, ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने के लिए या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है;
- श्री शंकरानंद भारती की उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ ए संख्या 3294/2009 शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ, के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी।
- 2003 के अनुभाग अधिकारियों का सी एस एल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित विभिन्न आवेदनों में चुनौती के तहत है। अतः अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/7/2011-सी एस-I दिनांक 30.6.2011 में उल्लिखित विभिन्न ओ ए के परिणाम के भी अध्यधीन है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 सितम्बर 2011

सं. 91 (फा. सं. ए 19013/33/2011-प्रशा-1)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.8.2011 के आदेश सं. 5/7/2004-सीएस-I(यू) के अनुसरण में विधि एवं न्याय मंत्रालय के

केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री संदीप सिंह, को दिनांक 06.09.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक निम्न शर्तों पर तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/-) + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये) में राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

- (i) उपर्युक्त तदर्थ प्रोन्नति, ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने के लिए या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है;
- (iii) श्री संदीप सिंह की उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ ए संख्या 3294/2009 शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ, के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी।
- (iv) 2003 के अनुभाग अधिकारियों का सी एस एल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित विभिन्न आवेदनों में चुनौती के तहत है। अतः अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/7/2011-सी एस-I दिनांक 30.6.2011 में उल्लिखित विभिन्न ओ ए के परिणाम के भी अध्यधीन है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 92 (फा. सं. ए 19013/32/2011-प्रशा-1)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.8.2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I(यू) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री बिप्लब कुमार नस्कर, को दिनांक 01.09.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक निम्न शर्तों पर तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/-) + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये) में राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

- (i) उपर्युक्त तदर्थ प्रोन्नति, ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने के लिए या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है;
- (iii) श्री बिप्लब कुमार नस्कर की उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ ए संख्या 3294/2009 शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ, के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी।

- (iv) 2003 के अनुभाग अधिकारियों का सी एस एल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित विभिन्न आवेदनों में चुनौती के तहत है। अतः अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/7/2011-सी एस-I दिनांक 30.6.2011 में उल्लिखित विभिन्न ओ ए के परिणाम के भी अध्यधीन है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 93 (फा. सं. ए 19013/26/2011-प्रशा-1)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.8.2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I(यू) के अनुसरण में व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री उमेश कुमार अग्रवाल, को दिनांक 17.08.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक निम्न शर्तों पर तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/-) + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये) में राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

- (i) उपर्युक्त तदर्थ प्रोन्नति, ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने के लिए या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है;
- (iii) श्री उमेश कुमार अग्रवाल की उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ ए संख्या 3294/2009 शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ, के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी।
- (iv) 2003 के अनुभाग अधिकारियों का सी एस एल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित विभिन्न आवेदनों में चुनौती के तहत है। अतः अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/7/2011-सी एस-I दिनांक 30.6.2011 में उल्लिखित विभिन्न ओ ए के परिणाम के भी अध्यधीन है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 सितम्बर 2011

सं. 94 (फा. सं. ए 19013/31/2011-प्रशा-1)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.8.2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I(यू) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री राज कुमार, को दिनांक 1.09.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक निम्न शर्तों

पर तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/-) + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये) में राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

- (i) उपर्युक्त तदर्थ प्रोन्नति, ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने के लिए या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय बिना कारण दिए समाप्त की जा सकती है;
- (iii) श्री राज कुमार की उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ ए संख्या 3294/2009 शीर्षक श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ, के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी।
- (iv) 2003 के अनुभाग अधिकारियों का सी एस एल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित विभिन्न आवेदनों में चुनौती के तहत है। अतः अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/7/2011-सी एस-I दिनांक 30.6.2011 में उल्लिखित विभिन्न ओ ए के परिणाम के भी अध्याधीन है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 23 सितम्बर 2011

सं. 99 (फा.सं. ए-19013/34/2011-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, सुश्री रानू मुखर्जी, (भारतीय राजस्व सेवा: आयकर) को दिनांक 16.09.2011 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हों, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2011

सं. 2011 का 38 (फा.सं. ए-19013/30/2011-प्रशा.-I-क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.05.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सी एस-II(ए) (पार्ट) और व्यय विभाग (सी ए एस) के दिनांक 14 सितम्बर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/04/2010-सी.ए.एस., के अनुसरण में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी एस एस एस) के नियमित निजी सचिव श्री टी. एम. कुरियन को दिनांक 08.09.2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (रुपये 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये) में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री टी. एम. कुरियन की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने या प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. ए-12011/05/2010-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में समान पद पर नियुक्ति को पूर्णतः तदर्थ आधार पर 30.09.2011 तक की आगे की अवधि के लिए अथवा नियमित निजी सचिव उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

- (i) श्री आर. एल. वी. प्रसाद राव
- (ii) श्री राजेन्द्र कुमार
- (iii) श्री ए. के. प्रसाद

2. श्री ए. के. प्रसाद, प्रधान निजी सचिव इस समय ऋण आधार पर प्रधान मंत्री कार्यालय में कार्यरत हैं।

3. उपर्युक्त अधिकारियों की 30.09.2011 से आगे प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ स्वरूप की है और इससे उन्हें इस पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अशोक कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12011/05/2010-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग की नियमित वैयक्तिक सहायक सुश्री जयवन्ती गुलशन कुमार को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-2 में 12 सितम्बर, 2011 के अपराह्न से 30.09.2011 तक अथवा नियमित निजी सचिव उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सीएसएसएस के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में सुश्री जयवन्ती गुलशन कुमार की नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

अशोक कुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2011

सं. ए-60011/03/2007-सीएसी--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से 5,400/- रुपए की ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड-3 (संशोधन पूर्व 8,000-275-13,500 रुपए) में भारतीय लागत लेखा सेवा, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में सहायक निदेशक (लागत) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

सहायक निदेशक (लागत) के पद पर उनकी नियुक्ति के पश्चात उन्हें उनके नाम के सामने उल्लिखित कार्यालयों में तैनात किया गया है:-

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती स्थल
1	2	3	4
1.	श्री नूका हरि हर प्रसाद कोरीपुरी	03.09.2010 (पूर्वाह्न)	उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण शर्करा विभाग, कमरा सं. 292-ए, द्वितीय तल, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2.	श्री पवन कुमार	22.09.2010 (पूर्वाह्न)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, प्रशुल्क आयोग, कमरा सं. 704, सातवां तल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110511.
3.	श्री रामकुमार एस. पाण्डेय	29.04.2011 (पूर्वाह्न)	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय मुंबई 1, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, 115, एम के रोड चर्च रोड, मुंबई-433320.
4.	सुश्री रश्मि तहिलियानी	28.04.2011 (पूर्वाह्न)	मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (जयपुर जोन), एनसीआर भवन, स्टेट्यू सर्कल, जयपुर-302005 (राज.)।
5.	श्री राकेश पाण्डेय	08.07.2011 (पूर्वाह्न)	लागत लेखा परीक्षा शाखा, बीकानेर हाऊस हटमेंट सं. 4, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011.
6.	श्री आनंद प्रकाश	28.07.2011 (पूर्वाह्न)	लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय परिसर (सीजीओ), ब्लॉक सं. 14, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
7.	श्री निपुण गुप्ता	28.06.2011 (पूर्वाह्न)	लागत लेखा परीक्षा शाखा, बीकानेर हाऊस हटमेंट सं. 4, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011
8.	श्री अमित कुमार	01.06.2011 (पूर्वाह्न)	मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, द्वितीय तल, सी विंग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110511.
9.	श्री विकास माथुर	28.07.2011 (पूर्वाह्न)	मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, द्वितीय तल, सी विंग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110511
10.	श्री श्याम सुंदर अग्रवाल	29.04.2011 (पूर्वाह्न)	राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, पांचवां तल, वाईएमसीए सांस्कृतिक केन्द्र भवन 1, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
11.	श्री आर. जगन	16.03.2011 (पूर्वाह्न)	मुख्य केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, आई एस प्रेस रोड, कोचीन-682018.
12.	श्री अजय कुमार	16.05.2011 (पूर्वाह्न)	मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, द्वितीय तल, सी विंग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110511

1	2	3	4
13.	श्री मनोज कुमार सिंह	25.04.2011 (पूर्वाह्न)	सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय, कानपुर, 117/7, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
14.	श्री धनंजय मण्डल	29.06.2011 (पूर्वाह्न)	लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय परिसर (सीजीओ), ब्लॉक सं. 14, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
15.	सुश्री बबिता	29.04.2011 (पूर्वाह्न)	राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, पांचवां तल, वाईएमसीए सांस्कृतिक केन्द्र भवन 1, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

गीता छबड़ा, निदेशक (लागत)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. 8/2011(फा. सं. 6/2505/2009/एच.आर.डी.-1/3872)--इस महानिदेशालय में कार्यरत श्री केवल कृष्ण बजाज, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 सितम्बर 2011 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली-110107, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. ए-19012/1036/1997-स्था.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में नियमित वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री कृष्ण लाल, 30 सितम्बर, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

राजेश कुमार, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

सं. 38/1/उ.उ.स.स./2010-प्रशा.--श्री अनिल कुमार गोयल, लेखाधिकारी, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति की प्रतिनियुक्ति अवधि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तीन महीने के लिए अर्थात् दिनांक 01.09.2011 से 30.11.2011 तक अथवा अगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

राजीव कुमार, संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 12/13/2011-एसओ--राष्ट्रपति, श्री उन्मेष शरद वाघ, आईआरएस (सी एंड सी ई : 2000) को "लेटरल शिफ्ट" के आधार पर उप सचिव के स्तर पर राज्य मंत्री (कोयला) (श्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटील) के निजी सचिव के रूप में 01.08.2011 से तथा 08.06.2015 तक (अर्थात् ओएसडी/निजी सचिव के रूप में पांच वर्षों के संयुक्त कार्यकाल की शेष अवधि के लिए) अथवा मंत्री जी के सह-पर्यन्त के आधार पर अथवा जब वह मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद कर देते हैं अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक नियुक्त करते हैं।

शरद घोडके, निदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

सं. ए-12011/03/2011--राष्ट्रपति, इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 115/2011, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के क्रम में, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) डॉ. ए. के. शर्मा दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 15,600--39,100/- रुपए (पी बी-3) के वेतन बैंड और 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद में उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं।

ओम प्रकाश, उप सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 फरवरी 2010

सं. 17013/26/2008-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा भर्ती) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने हरियाणा राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए 18 सितम्बर, 2009 को हुई चयन समिति की बैठक में वर्ष 2004 से 2007 के लिए तैयार की गई चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के हरियाणा संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति कोट रिक्रिया भरणे के लिए निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल हैं:--

2005 की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	आई. पी. सिंह	20.09.1952
2.	भगवान सिंह	05.03.1952

2007 की चयन सूची

नाम	जन्म तिथि
श्री विजेन्द्र सिंह कादयान	19.11.1953

*वर्ष 2004 और 2006 की चयन सूचियों के प्रति चयन के लिए कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था।

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2010

सं. 17015/01/2007-भा. व. से.-II--केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम 1966, के नियम 5 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 10 दिसंबर, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा 2007 के अधिकारियों को राज्य/संयुक्त राज्य संवर्ग आबंटित किए हैं।

2. निम्नलिखित अधिकारियों जिन्हें एजीएमयूटी असम-मेघालय संयुक्त संवर्ग आबंटित किया गया था को एतद्वारा उनके नाम के सामने दिया गया राज्य आबंटित किया जाता है :--

क्र. नाम सं.	दिनांक 10 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना द्वारा आबंटित संयुक्त संवर्ग	राज्य संवर्ग जिनको आबंटित किया गया
1. न्याली इटे	एजीएमयूटी	अरुणाचल प्रदेश
2. प्रशांत धांडा	असम-मेघालय	असम
3. वसंतन बी.	असम-मेघालय	असम

एस. एस. बधावन, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 सितम्बर 2011

सं. जे-22018/12/2003-सीएस-III (.)--राष्ट्रपति, डॉ. बालकृष्ण पिस्पति को 80,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई में अध्यक्ष के पद पर 12 अगस्त, 2011 के अपराह्न से और 11 अगस्त, 2014 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सुजाता अरोड़ा, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2011

सं. 17016/1/2011 आईएफएस-I--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंगाल संवर्ग में श्रीमती सोमा दास, भा.व. सेवा (छत्तीसगढ़ : 2002) की अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति को

अनुमोदित किया है। श्रीमती सोमा दास, भा. व. सेवा की सेवाएं उनके पश्चिम बंगाल सरकार में कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को सौंपी गई हैं।

ओ. पी. जोशी, अवर सचिव

सं. 17016/1/2011 आईएफएस-I--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु संवर्ग में श्री एच. राजा मोहन, भा.व. सेवा (उत्तर प्रदेश : 2001) की अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति को अनुमोदित किया है। श्री एच. राजा मोहन, भा. व. सेवा की सेवाएं उनके तमिलनाडु सरकार में कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए, तमिलनाडु राज्य सरकार को सौंपी गई हैं।

ओ. पी. जोशी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2011

सं. ए-12025/13/2008-सीएचएस-IV--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, डॉ. दीपक जोशी को दिनांक 17 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (अस्थि विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 सितम्बर 2011

सं. ए-12025/07/2008-सीएचएस-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. देवदत्त पोद्दार को 01 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (जूनियर स्केल) (सर्जरी) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

सं. ए-12025/189/2009-सी.एच.एस. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राजीव कुमार सिंह को दिनांक 15.07.2010 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में (पीबी-3) (15,600--39,100 रुपये) + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करती हैं। डॉ. राजीव कुमार सिंह को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। डॉ. राजीव कुमार सिंह नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. ए-22014/1/2011-स्थापना-III--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 19.5.2011 के आदेश सं. 12016/2/2011-एसएसएस के अनुसरण में अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने नाम के सामने उल्लिखित तिथि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (अन्वेषक ग्रेड-I), जो समूह 'ख' राजपत्रित पद हैं, के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :-

क्र.सं.	नाम	अन्वेषक ग्रेड-I के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख (तदर्थ आधार पर)
---------	-----	---

1.	श्री अशोक कुमार द्विवेदी	06.06.2011 (पूर्वाह्न)
2.	श्री सूबा लाल	10.06.2011 (पूर्वाह्न)
3.	श्री राजकमल श्रीवास्तव	21.06.2011 (पूर्वाह्न)

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2011

सं. 38017/1/2009-विपणन-1--पे. बैंड-3, 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रुपये 7,600/- में उप कृषि विपणन सलाहकार (ग्रुप-III) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत होने पर निम्नलिखित अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	डॉ. एस. सी. खुराना	05.07.2011
2.	श्री एम. थंगराज	06.07.2011

सुकुमार, उप सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. ए. 19011/4/2011-स्था.--महामहिम राष्ट्रपति जी, श्री अमरेंद्र कुमार दूबे, भा.प्र.से. (केरल : 82) को पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर पे बैंड (पीबी-4) 37,400--67,000/- रुपये + ग्रेड पे 10,000/- रुपये को दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से नियुक्त करती हैं।

एल. हैकिप, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2011

सं. 5-12/2011-प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/2011-सीएस. I (यू) के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर पदोन्नति तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में नामांकन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री राजेश कुमार (सीएसएल नं. 7026), को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) तथा 6,600/- रुपये (ग्रेड पे) के वेतनमान में दिनांक 09 सितम्बर, 2011 के पूर्वान्न से तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जय किशोर, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. पीएफ/एस/150-प्रशासन--युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एल. सं. 4496) के उप सचिव श्री स्वप्न कुमार गोस्वामी, द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के एफ आर-56 (के) (1) और (1-ए)/(ए) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस को स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें सरकारी सेवा से 21.10.2011 (पूर्वान्न) से स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

गुरचरण सिंह, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2011

सं. 11036/13/2009-पीसीएंडवी--दिनांक 14 जुलाई, 2009 की इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11036/9/2006-पीसीएंडवी (ii) के अधिक्रमण में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे उल्लिखित संबंधित प्रभागों द्वारा निपटए जा रहे विशिष्ट विषय संबंधी मामलों के संबंध में एतद्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम तथा पता	दूरभाष सं.	प्रभाग/अनुभाग
1	2	3	4	5
	श्रीमान/श्रीमती			
1.	डॉ. बचिन्द्र सिंह	संयुक्त सचिव, कमरा सं. 722, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073489	एसजी/प्रशासन/ सामान्य/पीसीएंडवी/ आरएंडएम/ सीपीएंडआर

1	2	3	4	5
2.	डॉ. (श्रीमती) साधना संयुक्त सचिव, उक्त कमरा सं. 741, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23383622	एनजीओ/शिक्षा/ सीएंडएम	
3.	सिलादित्य चौधरी	उप महानिदेशक (सांख्यिकी), कमरा सं. 241, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	26182094	सांख्यिकी
4.	ए. एन. झा	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कमरा सं. 637, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23381730	आईएफडी

जे. के. पोपली, निदेशक

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 सितम्बर 2011

सं. 36-2/2011-प्रशा. I--राष्ट्रपति डॉ. दिनेश अरोड़ा, आईएएस (केरल : 2002) को 25.07.2011 के पूर्वान्न से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए अथवा को-टर्मिनस आधार पर अथवा उनके द्वारा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद किए जाने तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. पर उप सचिव के स्तर पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 23 सितम्बर 2011

सं. 2(4)/2011-पीए(टीए)--राष्ट्रपति महोदया ने श्री के. वाई. लक्ष्मीपती, अधीक्षक, एस.टी.क्यू.सी. निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रशासनिक अधिकारी-ग्रेड-II के पद पर रु. 9,300--34,800 + रु. 4,600/- के वेतनमान में दिनांक 07.09.2011 (पूर्वान्न) से नियुक्त किया है।

2. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति की तारीख से वह दो वर्ष तक परीवीक्षाधीन रहेंगे।

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. पीएफ/66/एनआईसी/2011-प्रशा.-I--डॉ. काशीनाथ, वैज्ञानिक-जी (उप महानिदेशक) कर्मचारी कोड सं. 66, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

सं. पीएफ/546/एनआईसी/2011-प्रशा.-I--श्री सी. वी. गणेशन, संयुक्त निदेशक, कर्मचारी कोड सं. 546, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

सं. पीएफ/3155/एनआईसी/2011-प्रशा.-I--श्री हरीश चन्द्र नौटियाल, वैज्ञानिक-एफ, कर्मचारी कोड सं. 3155, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

सं. ए 12025/01/10-आर. एस.--राष्ट्रपति, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस.ई.) के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी श्री सतीश कुमार मित्तल को दिनांक 13 सितम्बर, 2011 (पूर्वाह्न) से नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में रेल संरक्षा आयुक्त, वेतनमान रु. 67,000--79,000 के पद पर आमेसन के आधार पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

ओमा नन्द, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. ई.(जी.पी.) 2008/3/8--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के यातायात सेवा के निम्नलिखित ग्रुप-बी अधिकारी की उल्लिखित रेलवे पर

30.12.2010 से भारतीय रेल यातायात सेवा (आई. आर. टी. एस.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2009-10 के लिए पैनल

अधिकारी का नाम

उत्तर पश्चिम रेलवे

श्री एल. के. व्यास

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 4 अक्टूबर 2011

सं. ई.(जी.पी.) 2006/3/5--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के कार्मिक विभाग के निम्नलिखित ग्रुप-बी अधिकारी की उल्लिखित रेलवे पर 11.07.2008 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आई. आर. पी. एस.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2007-08 के लिए पैनल

पूर्व मध्य रेलवे

श्री सुधीर मिश्रा

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2011

सं. 34/2011-फा. सं. 2/1/2010-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय (विधि कार्य विभाग एवं विधायी विभाग) मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, श्री एम. एन. बुराड़ को 19 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से 31.05.2012 तक की अवधि अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक तदर्थ आधार पर विद्युत मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I में (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I (यू) में समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों के द्वारा शासित होगी।

मधुकर सूद, अवर सचिव

दिनांक 29 सितंबर 2011

सं. 5/2011-मि.सं.ए-35018/3/2009-प्रशा.एक--राष्ट्रपति, विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36) की धारा 70 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री रवीन्द्र, मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, को प्रतिनियुक्ति आधार पर 67,000--79,000 रुपए

के वेतन श्रेणी में भारत सरकार में अपर सचिव के पदेन स्तर में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (विद्युत प्रणाली) पद पर उनके नियुक्ति की तिथि 21/09/2011 से पांच वर्ष के लिये, या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, या अगले आदेशों तक नियुक्ति करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

सं. 6/2011-मि.सं.ए-35018/3/2009-प्रशा.एक--राष्ट्रपति, विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36) की धारा 70 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री के. पी. सिंह, मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, को प्रतिनियुक्ति आधार पर 67,000--79,000 रुपए के वेतन श्रेणी में भारत सरकार में अपर सचिव के पदेन स्तर में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (थर्मल) पद पर उनके नियुक्ति की तिथि 21/09/2011 से पांच वर्ष के लिये, या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, या अगले आदेशों तक नियुक्ति करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. 6/460/2011-प्रशा. I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के आदेश सं. 20/9/2011-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में श्री गिरीश बी. प्रधान, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमएच-77)

ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में 01 अक्टूबर, 2011 के पूर्वाह्न से सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 सितम्बर 2011

सं. ए-13011/04/2011 प्रशा--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्री रत्न ज्योति दत्ता चौधरी को दिनांक 16 अगस्त, 2011 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में वेतनमान 15,600--39,100/- रु., ग्रेड पे 7,600/- रु. में उप सलाहकार (पीएचई) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. नारायण रेड्डी, अवर सचिव

शहर विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. के-11011/9/2006-(डीडी-I ए)--राष्ट्रपति, श्री मनीश कुमार, आईए एंड एस (91) को दिनांक 29.07.2014 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक स्तर पर मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. टी. जोसफ, अवर सचिव (डीडी-I ए)

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 3rd October 2011

No. A-22012/1/2011-PME—Consequent upon his appointment as Deputy Passport Officer in Regional Passport Office, Hyderabad, Shri L. Madana Kumar R. has relinquished the charge of the post of Under Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 3rd October, 2011.

SANJAY LOHIYA, Director

New Delhi-110101, the 28th September 2011

No. A-22012/01/2011-PME—Consequent upon his appointment as Executive Director, World Bank, Washington, USA, Shri M. N. Prasad, IAS (BH : 1972) (Retired) has relinquished the charge of the post of Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 28th September, 2011.

L. MADANA KUMAR R., Under Secy.

The 3rd October 2011

No. A-22012/1/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri Pulok Chatterji, IAS (UP : 74) (Retd), as Principal Secretary to the Prime Minister with effect from the forenoon of 3rd October, 2011 on approved standard terms and conditions. His appointment will be co-terminus with the term of the Prime Minister or till further orders whichever is earlier.

L. MADANA KUMAR R., Under Secy.

No. A-22012/1/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri T. K. A. Nair, IAS (PB : 63) (Retd), as Adviser to the Prime Minister with the rank and status of Minister of State with effect from the forenoon of 3rd October, 2011 till further orders after his relinquishing the charge of the post of Principal Secretary to the Prime Minister on the same date.

L. MADANA KUMAR R., Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th September 2011

No. RS/3/7/1/2011/91-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Sah, Translator in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Editor on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 26th September, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 29th September 2011

No. RS.43/1/2010/92-Perl.—Consequent upon winding up of the Committee constituted under Section 3 of Judges (Inquiry) Act, 1968 and headed by Hon'ble Justice Aftab Alam, the services of the following officers appointed in the Committee, shall stand terminated w.e.f. the afternoon of 10th October 2011.

1. Shri K. D. Singh, Secretary
2. Shri H. S. Kapoor, Registrar
3. Shri Rajinder Pershad, Deputy Director
4. Shri Lalit Mohan Sharma, Private Secretary
5. Shri Sukhvinder Singh Grewal, Private Secretary

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS.43/1/2010/93-Perl.—Consequent upon the winding up of the Committee constituted under Section 3 of Judges (Inquiry) Act, 1968 and headed by Hon'ble Justice Aftab Alam, Shri J. B. Mohapatra, Joint Secretary, shall stand relieved of his duties in the said Committee with effect from the afternoon of 10.10.2011 and his services placed back at the disposal of his parent department i.e. Department of Revenue, Ministry of Finance i.e. w.e.f. 10.10.2011 (AN).

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 3rd October 2011

No. RS/20/1/2011/99-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Vijay Prakash Vashishth, Executive Officer retired from service with effect from the afternoon of 30th September, 2011.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/20/1/2011/100-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Raj Kumar Wahi, Executive Officer (in-situ) retired from service with effect from the afternoon of 30th September, 2011.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 5th October 2011

No. A-19013/5/2006-Ad.—The President is pleased to appoint Shri G. Muraleedharan Pillai, Joint Director as Director in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the National Security Council Secretariat with effect from the forenoon of 29th September 2011.

M. S. S. NAIR, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 30th September 2011

No. E-15012/17/2011-Sec. IV—The President has dismissed from the services Shri Shashi Kant, Sci./Engr. 'SC', Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore, vide Order of even number dated September 30, 2011 in pursuance of the proviso to Sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965.

G. CHANDRASEKAR, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 3rd October 2011

No. A-12025/3/2010-Adm. I—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 4th February, 2011, the President is pleased to extend the term of adhoc appointment of following regular Senior Research Officers of Planning Commission against the posts of Deputy Adviser in Planning Commission as mentioned against their names in Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- for the period indicated against each, or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name with Designation	Term extended	
		From	To
1.	Dr. R. P. Singh, Dy. Adviser (Education)	09.08.2011	31.12.2011
2.	Ms. Roohi Siddiqui, Dy. Adviser (VAC)	09.08.2011	31.12.2011
3.	Shri Prem Singh, Dy. Adviser (Project Appraisal)	16.09.2011	31.12.2011

2. It is made clear that the above said adhoc appointment will not bestow on the officers any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by them on adhoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

G. RAJEEV, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 4th October 2011

No. A-19011/80/2011-UIDAI—In pursuance of approval of the Appointments Committee of the Cabinet as conveyed by Department of Personnel & Training (DoP&T) O. M. No. 6/43/2005-EO (SM-I) dated 19-08-2011 and Inter State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs Office Order No. A-19011/2/2010-ISC dated 03-10-2011, Shri Amitabh Kharkwal (IPoS : 89), has assumed charge of Assistant Director General (ADG) in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 04-10-2011 (FN) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- under Non Central Staffing Scheme for a period upto 13.11.2013 or until further orders whichever occurs earlier.

DIVYA PRASAD, Asstt. Director General

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 4th October 2011

No. A-19/G-A/92—Shri Jai P. Prakash, IAS (AM : 82) whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India vide the M/o Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training reference No. 14/5/2006-EO (SM. I) dated 30.08.2006, is hereby relieved from the post of Deputy Election Commissioner in the Secretariat of the Election Commission of India, on completion of his tenure, with effect from 04.10.2011 (AN), to report to the cadre.

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 27th September 2011

No. A-12034/1/2011-Admn.IV (LA)—The President is pleased to appoint Shri Pratyush Shankar Shukla as Assistant Private Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of Law & Justice (Shri Salman Khurshid) w.e.f. 28.07.2011(F/N) in the Pay Band PB-2, Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay of Rs. 4,800/-.

2. In terms of Ministry of Finance O.M. Nos. F. 67(21)-E.V/60 dated 16.12.1960 and F. 25(24)-E.V/66 dated 24.08.1966 mentioned below FR-10 of Fundamental Rules, the appointment of Shri Pratyush Shankar Shukla is provisional subject to his being found medically fit. In case Shri Shukla is found medically unfit, his services shall be terminated after the expiry of the period of one month from the date of communication to him of the findings of the Medical Officer/Board if no appeal for a second medical examination is made by him during this period or after the case for second medical examination is finally decided if such an appeal is made and accepted.

3. The appointment of Shri Pratyush Shankar Shukla is at the pleasure of, and coterminus with the tenure of Shri Salman Khurshid as Minister for Law & Justice.

ASHA SOTA, Under Secy.

No. A-12034/1/2011-Admn.-IV(LA)—The President is pleased to appoint Shri Sumit Wadhwa as Assistant Private Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of Law & Justice (Shri Salman Khurshid) w.e.f. 28.07.2011 (FN) in the Pay Band PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-.

2. The appointment of Shri Sumit Wadhwa is at the pleasure of, an co-terminus with the tenure of Shri Salman Khurshid as Minister for Law & Justice.

ASHA SOTA, Under Secy.

The 30th September 2011

No. A-38013/03/2011-Admn.IV (LA)—On attaining the age of superannuation, Smt. Rina Sen, Cash Officer, Department of Legal Affairs retires from Government Service with effect from the afternoon of 30th September, 2011.

ASHA SOTA, Under Secy.

No. A-38012/05/2011-Admn.IV (LA)—On attaining the age of superannuation, Shri C. O. Rajan, Director, Department of Legal Affairs retires from Government Service with effect from the afternoon of 30th September, 2011.

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th October 2011

No. I-18012/4/2011-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri K. D. Parashar, member of the Indian Police Service allocated to the Cadre of Madhya Pradesh in the Indian Police Service, with effect from 20.12.2006.

BALDEV RAJ, Under Secy.

DISASTER MANAGEMENT DIVISION

New Delhi, the 30th September 2011

No. 45011/4/2010-Ad (CD)—On successful completion of his probation the President is pleased to appoint Shri Om Prakash as Fire Adviser in the Director General Civil Defence Unit of Ministry of Home Affairs on in substantive capacity with effect from 16.06.1996.

ASHOK SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 19th August 2011

No. 14015/09/2009-AIS(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulations, 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service Officers of Jammu & Kashmir Cadre containing the following names prepared on 28th December, 2010 under Regulation 5(5) and approved on 12th July, 2011, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS of Jammu & Kashmir Cadre under State Civil Service Category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government against the vacancies of 2008 and 2009 :—

Select List 2008-A (Against vacancies of 2008)

Sl. No.	Name	Date of Birth
(S/Sh.)		
#1.	Mohammad Aslam Laigroo	14.06.1952
2.	Tushar Kanti Sharma	17.09.1955
3.	Mohammad Afzal Bhat	31.03.1958
4.	Mohammad Shafi Rather	27.12.1954
5.	Sudarshan Sharma	16.01.1954

#The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

Select List 2009 (Against vacancies of 2009)

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
(S/Sh.)		
#0.	Mohammad Aslam Laigroo	14.06.1952
1.	Mehraj Ajmad Kakroo	02.01.1955
2.	Satesh Nehru	31.01.1956
3.	Parvez Ahmad Malik	15.01.1956
4.	Anal Kumar Gupta	08.01.1958
5.	Baseer Ahmed Khan	03.06.1959
6.	Raj Kumar Bhagat (SC)	30.09.1958
7.	Abdul Majid Mir	20.03.1955
\$8.	Mohammad Yousuf Dar	20.05.1955
9.	Mrs. Nirmal Sharma	01.02.1958
10.	Shafaat Noor Barlas	13.05.1955
11.	Abdul Latief Deva	01.01.1957
12.	Ramesh Kumar Koul	21.02.1955
13.	Khrushid Ahmad Shah	26.04.1960
14.	Mohammed Sharif Sood (ST)	08.10.1955
15.	Zaffar Ahmad Bhat	09.04.1956
16.	Abdul Maajid Ganai	29.04.1955

#The name at Sl. No. 0 has been included as per second proviso to Regulation 5(5) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulation, 1955 and has also been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

\$The name at Sl. No. 8 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

2. The inclusion of the above officers in the select lists is subject to the following :—

- (a) LPA No. 206/2009 titled Government of Jammu & Kashmir Vs. Nazir Ahmad Sheikh and Other petitions if any pending on the issue.
- (b) Interim directions dated 2.6.2011 in LPA No. 106/2011 in the matter of State of J & K and others Vs. Abdul Mazid Wani and others and;
- (c) Interim directions dated 8.6.2011 in Review Petition No. 16/2011 in SWP No. 967/2004 in the matter of Ajay Khajuria Vs. State of J & K and others.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 29th September 2011

No. 14012/31/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the West Bengal Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date shown against him :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
(S/Sh.)			
1.	Ms. Antara Acharya	2006	11.12.2008
2.	Ms. Rashmi Kamal	2006	29.08.2008
3.	Tanmay Chakrabarty	2006	29.08.2008
4.	Yeluchuri Ratnakara Rao	2006	29.08.2008
5.	Anurag Srivastava	2007	18.08.2009
6.	Niranjan Kumar	2007	18.08.2009
7.	Rajat Kumar Saini	2007	18.08.2009

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14013/07/2010-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, Smt. L. R. Sangma a member of the Indian Administrative Service borne on the Assam-Meghalaya Joint Cadre of 1997 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 28.10.2005.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 7th October 2011

No. 24012/11/2006-Estt.(B)—The President is pleased to appoint Shri Bishwajit Bandyopadhyay, ICoAS (1992), as Regional Director, Staff Selection Commission (Eastern Region), Kolkata with effect from 28th September, 2011 (Forenoon) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

RAKESH MOZA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F))

New Delhi, the 26th September 2011

No. D-III/460/CF-32/2010—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Naveen Bangalore Lakshmikanth as Honorary Consul of the Republic of Côte d'Ivoire in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Naveen Bangalore Lakshmikanth comprises the City of Bengaluru with the seat in Bengaluru.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

The 29th September 2011

No. D-III/460/CF-22/2011—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Raad Khalil Mohammed Al-Khalil as Consul General of the Republic of Iraq in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Raad Khalil Mohammed Al-Khalil comprises the States of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Goa with the seat in Mumbai.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 5th September 2011

No. 90: (F. No. A-19013/27/2011-Ad-I)—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11.08.2011, the President of India is pleased to appoint Shri Shankra Nand Bharti, a permanent Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Information and Broadcasting to Grade-I of the CSS (Under Secretary), on ad hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 19.08.2011 (FN) on the following conditions :—

- (i) The above ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The ad hoc promotion of Shri Shankra Nand Bharti shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI pending before the CAT, New Delhi; and
- (iv) CSL of SOs of 2003 is under challenge in several applications pending before CAT, New Delhi. Therefore, the ad hoc promotion to the grade of US is also subject to the outcome of various O.As. mentioned in DoP&T O.M. No. 6/7/2011-CS.I dated 30.06.2011.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 12th September 2011

No. 91 (F. No. 19013/33/2011-Ad-I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11.08.2011, the President is pleased to appoint Shri Sandeep Singh, a permanent Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Law & Justice to Grade-I of the CSS (Under Secretary), on ad hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 06.09.2011 (FN) and until further orders on the following conditions :—

- (i) The above ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The above ad hoc promotion of Shri Sandeep Singh shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI pending before the CAT, New Delhi; and
- (iv) CSL of SOs of 2003 is under challenge in several applications pending before CAT, New Delhi. Therefore, the ad hoc promotion to the grade of US is also subject to the outcome of various O.As. mentioned in DoP&T O.M. No. 6/7/2011-CS.I dated 30.06.2011.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 92 (F. No. 19013/32/2011-Ad-I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11.08.2011, the President is pleased to appoint Shri Biplab Kumar Naskar, a permanent Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Home Affairs to Grade-I of the CSS (Under Secretary), on ad hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 01.09.2011 (FN) and until further orders on the following conditions :—

- (i) The above ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The above ad hoc promotion of Shri Biplab Kumar Naskar shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI pending before the CAT, New Delhi; and
- (iv) CSL of SOs of 2003 is under challenge in several applications pending before CAT, New Delhi. Therefore, the ad hoc promotion to the grade of US is also subject to the outcome of various O.As.

mentioned in DoP&T O.M. No. 6/7/2011-CS.I dated 30.06.2011.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 93 (F. No. 19013/26/2011-Ad-I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11.08.2011, the President is pleased to appoint Shri Umesh Kumar Agarwal, a permanent Section Officer in the CSS cadre of the Department of Expenditure to Grade-I of the CSS (Under Secretary), on ad hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 17.08.2011 (FN) and until further orders on the following conditions :—

- (i) The above ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The above ad hoc promotion of Shri Umesh Kumar Agarwal shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI pending before the CAT, New Delhi; and
- (iv) CSL of SOs of 2003 is under challenge in several applications pending before CAT, New Delhi. Therefore, the ad hoc promotion to the grade of US is also subject to the outcome of various O.As. mentioned in DoP&T O.M. No. 6/7/2011-CS.I dated 30.06.2011.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 13th September 2011

No. 94 (F. No. 19013/31/2011-Ad-I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11.08.2011, the President is pleased to appoint Shri Raj Kumar, a permanent Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Home Affairs to Grade-I of the CSS (Under Secretary), on ad hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 01.09.2011 (FN) and until further orders on the following conditions :—

- (i) The above ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service;
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The above ad hoc promotion of Shri Raj Kumar shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI pending before the CAT, New Delhi; and

- (iv) CSL of SOs of 2003 is under challenge in several applications pending before CAT, New Delhi. Therefore, the ad hoc promotion to the grade of US is also subject to the outcome of various O.As. mentioned in DoP&T O.M. No. 6/7/2011-CS.I dated 30.06.2011.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 23rd September 2011

No. 99 (F. No. A-19013/34/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Ranu Mukherjee (IRS : IT) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes of the Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 16.09.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 16th September 2011

No. 38/2011 (F. No. A.19013/30/2011-Ad.IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A)(Pt.) dated 30.05.2011 and Department of Expenditure, (CAS)'s O. M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 14th September, 2011, the President is pleased to appoint Shri T. M. Kurian, a regular Private Secretary of CSSS of Ministry of Defence as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis w.e.f. 08.09.2011 (FN) for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The Promotion of Shri T. M. Kurian to the post of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delh, the 30th September 2011

No. A-12011/05/2010-II—The President is pleased to extend the appointment of the following Principal Private Secretary of CSSS of Finance Cadre in the same capacity in the Ministry of Finance Department of Economic Affairs purely on ad hoc basis for a further period upto 30.09.2011 or till the regular PPSs become available or until further orders, whichever is earlier :—

(i) Shri R. L. V. Prasada Rao

(ii) Shri Rajinder Kumar

(iii) Shri A. K. Prasad

2. Shri A. K. Prasad, PPS is presently working in the Prime Minister Office on loan basis.

3. The ad hoc promotion of the above Officers beyond 30.9.2011 to the Post of PPS is purely ad hoc in nature and

shall not confer any right to them to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

No. A-12011/05/2010-Admn.II—The President is pleased to appoint Ms. Jaiwanti Gulshan Kumar, a regular Personnel Assistant (PA) of CSSS Cadre of Ministry of Personnel & Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training, to the post of Private Secretary of CSSS in Pay Band PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) on ad hoc basis in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the afternoon of 12th September, 2011 and upto 30.09.2011 or till regular Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier :—

2. The ad hoc appointments of Ms. Jaiwanti Gulshan Kumar to the grade of PS is purely on ad hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PS. Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 27th September 2011

No. A-60011/3/07-CAC—On the recommendations of UPSC, the President is pleased to appoint the following Officers in the grade of Assistant Director (Cost) in the Indian Cost Accounts Seervice, Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (pre-revised Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from the dates mentioned against their names.

On their appointment as Assistant Director (Cost), they have been posted in the offices mentioned against their names as under :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment	Place of Posting
1	2	3	4
1.	Shri Nooka Hari Hara Prasad Koripuri	03.09.2010 (FN)	Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Sugar, R. No. 292-A, 2nd Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001.
2.	Shri Pawan Kumar	22.09.2010 (FN)	Ministry of Commerce & Industry, Tariff Commission, R. No. 704, 7th Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110511
3.	Shri Ram-Kumar S. Pandey	29.04.2011 (FN)	Central Excise Commissionerate Mumbai I, Central Excise Building, 115, M. K. Road, Churchgate, Mumbai-400020
4.	Ms. Rashmi Tahiliani	28.04.2011 (FN)	Office of the Chief Commissioner, Central Excise (Jaipur Zone), NCR Building, Statue Circle, Jaipur-302005 (Rajasthan)

1	2	3	4
5.	Shri Rakesh Pandey	08.07.2011 (FN)	Cost Audit Branch, Bikaner House Hutment No. IV, Shahjahan Road, New Delhi-11
6.	Shri Anand Prakash	28.07.2011 (FN)	Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Kendriya Karyalaya Parisar (CGO), Block No.14, Lodhi Road, New Delhi-3.
7.	Shri Nipun Gupta	28.06.2011 (FN)	Cost Audit Branch, Bikaner House Hutment No. IV, Shahjahan Road, New Delhi-11
8.	Shri Amit Kumar	01.06.2011 (FN)	O/o Chief Adviser (Cost), 2nd Floor, 'C' wing, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110511
9.	Shri Vikas Mathur	28.07.2011 (FN)	O/o Chief Adviser (Cost), 2nd Floor, 'C' wing, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110511
10.	Shri Shyam Sundar Agrawal	29.04.2011 (FN)	National Pharmaceuticals Pricing Authority, 5th Floor, YMCA Culture Central Building, 1, Jai Singh Road, New Delhi-1
11.	Shri R. Jegan	16.03.2011 (FN)	Chief Commissioner of Central Excise, I. S. Press Road, Cochin- 682018.
12.	Shri Ajay Kumar	16.05.2011 (FN)	O/o Chief Adviser (Cost), 2nd Floor, 'C' wing, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110511
13.	Shri Manoj Kumar Singh	25.04.2011 (FN)	Customs & Central Excise Commis- sionerate, Kanpur, 117/7, Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005
14.	Shri Dhananjay Mondal	29.06.2011 (FN)	Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Kendriya Karyalaya Parisar (CGO), Block No. 14, Lodhi Road, New Delhi-3
15.	Ms. Babita	29.04.2011 (FN)	National Pharmaceuticals Pricing Authority, 5th Floor, YMCA Culture Central Building, 1, Jai Singh Road, New Delhi-1

GEETA CHHABRA, Director (Cost)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

New Delhi, the 30th September 2011

No. 8/2011 (6/2505/2009/HRD-I/3872)—On attaining the age of superannuation Shri K. K. Bajaj, Joint DGFT (CSS) in this Office stands retired from Government Service with effect from 30.09.2011 (AN).

R. S. BISHT, Dy. Director General of
Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi-110107, the 30th September 2011

No. A-19012/1036/97-E.I—On attaining the age of superannuation, Shri Krishan Lal, a regular Senior Hindi

Translator officiating as Assistant Director (OL) on ad hoc basis in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government Service, with effect from the afternoon of 30th September, 2011.

RAJESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

FERTILIZER INDUSTRY COORDINATION COMMITTEE

New Delhi, the 4th October 2011

No. 38/1/FICC/2010-Admn.—With the approval of the Competent Authority, deputation period of Sh. Anil Kumar Goel, Accounts Officer in Fertilizer Industry Coordination Committee has been extended for three months w.e.f. 01.09.2011 to 30.11.2011 or until further orders, whichever is earlier.

RAJIVA KUMAR, Jt. Director (Admn.)

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 28th September 2011

No. 12/13/2011-ASO—The President is pleased to appoint Shri Unmesh Sharad Wagh, IRS (C&CE : 2000) as Private Secretary to the Minister of State (Coal) (Shri Pratik Prakashbapu Patil) at the level of Deputy Secretary on 'lateral shift' basis with effect from 01.08.2011 and upto 08.06.2015 (i.e. for the balance period of the combined tenure of five years as OSD/Private Secretary) or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister, or until further orders, whichever occurs the earliest.

SHARAD GHODKE, Director

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 4th October 2011

No. A-12011/3/2011-Estt.—In continuation of this Department's Office Order No. 115/2011, dated 12th September, 2011, the President is pleased to promote Dr. A. K. Sharma, a regular Assistant Director (Legal Metrology) in the Department of Consumer Affairs, as Deputy Director (LM) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 6,600/- on regular basis with effect from the forenoon of the 30th September, 2011 in Regional Reference Standards Laboratory, Faridabad until further orders.

OM PRAKASH, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 8th February 2010

No. 17013/26/2008-IFS.-II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations,

1966, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists for promotion from State Forest Service of Haryana to the Indian Forest Service for the years 2004 to 2007 prepared in the Selection Committee meeting held on 18th September, 2009 containing the name of following Officers of the State Forest Service of Haryana towards filling up of Promotion Quota Vacancies available in Haryana Cadre of the Indian Forest Service.

Select List of 2005

S.No.	Name	Date of Birth
S/Shri		
1.	I. P. Singh	02.09.1952
2.	Bhagwan Singh	05.03.1952

Select List of 2007

Shri Vijender Singh Kadian	19.11.1953
----------------------------	------------

*No eligible candidates were available for selection against the Select Lists of 2004 and 2006.

VIVEK SAXENA, Director

New Delhi, the 9th August 2010

No. 17015/01/2007-IFS.-II—In exercise of the powers conferred by Sub-rule(1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules 1966, the Central Government, in consultation with the State Government concerned, allocated the State/Joint State Cadres to the Officers of the Indian Forest Service Examination, 2007 vide Notification of even number dated 10th December, 2008.

2. The following Officers which were allocated the joint Cadre of AGMUT, Assam-Meghalaya are hereby allocated the State indicated against their names:—

S. No.	Name	Joint Cadre allocated vide Notification dated 10th December 2008	State Cadre to which allocated
(S/Shri)			
1.	Nyali Ete	AGMUT	Arunachal Pradesh
2.	Prashant Dhanda	Assam-Meghalaya	Assam
3.	Vasanthan B.	Assam-Meghalaya	Assam

S. S. BADHAWAN, Director

New Delhi-110003, the 15th September 2011

No. J-22018/12/2003-CS.-III (.).—The President is pleased to appoint Dr. Balakrishna Pisupati, to the post of Chairman, National Biodiversity Authority, Chennai in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 12th August, 2011 and upto 11th August, 2014 or until further orders, whichever is earlier.

SUJATA ARORA, Director

New Delhi-110003, the 21st September 2011

No. 17016/01/2011-IFS.-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Competent Authority has approved the inter-cadre deputation of Smt. Soma Das, IFS (CHH : 2002) from Chhattisgarh to West Bengal Cadre. The service of Smt. Soma Das, IFS are placed with the State Government of West Bengal for a period three years with effect from the date of her joining in West Bengal Government.

O. P. JOSHI, Under Secy.

No. 17016/01/2011-IFS.-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Competent Authority has approved the inter-cadre deputation of Shri H. Raja Mohan, IFS (UP : 2001) from Uttar Pradesh to Tamil Nadu Cadre. The services of Shri H. Raja Mohan, IFS are placed with the State Government of Tamil Nadu for a period of three years with effect from the date of his joining in Tamil Nadu Government.

O. P. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th September 2011

No. A-12025/13/2008-CHS.-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deepak Joshi to the post of Specialist Gr.-II (Orthopaedics) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation w.e.f. the forenoon of 17th September, 2008 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 29th September 2011

No. A-12025/07/2008-CHS.-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Devadatta Poddar to the post of Specialist Gr.-II (Junior Scale) (Surgery) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation w.e.f. the forenoon of 1st July, 2008 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 3rd October 2011

No. A-12025/189/2009-CHS.-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rajeev Kumar Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100] + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 15.07.2010 until further orders. Dr. Rajeev Kumar Singh is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Rajeev Kumar Singh shall be on probation for two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 3rd October 2011

No. A-22014/01/2011-Estt.-III—In pursuance of the Ministry of Statistics & Programme Implementation Order No. 12016/02/2011-SSS dated 19.05.2011, the following officers of Subordinate Statistical Services (SSS) have assumed charge of the post of Senior Statistical Officer (Investigator Grade-I) a Group 'B' Gazetted post in the Department of Health & Family Welfare with effect from the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name	Date of assumption of charge on the post of Investigator Grade-I (on adhoc basis)
1.	Sh. Ashok Kumar Dwivedi	06.06.2011 (FN)
2.	Sh. Suwa Lal	10.06.2011 (FN)
3.	Sh. Rajkamal Srivastava	21.06.2011 (FN)

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 23rd September 2011

No. 38017/01/2009-M.-I—Consequent upon their Promotion to the post of Deputy Agricultural Marketing Adviser (Group-III) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis, following Officers in Directorate of Marketing and Inspection have joined the post with effect from the dates indicated against their names:—

S. No.	Name	Date of Joining
1.	Dr. S. C. Khurana	05.07.2011
2.	Shri M. Thangaraj	06.07.2011

SUKUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 30th September 2011

No. A-19012/04/2011-Estt.-III—The President is pleased to appoint Shri Amarendra Kumar Dubey, IAS (KL : 82) as Joint Secretary in the Ministry of Panchayati Raj, in the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 30th September, 2011.

L. HAOKIP, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th September 2011

No. 5-12/2011-Admn.—Consequent upon his promotion as Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service

(CSS) on adhoc basis in pursuance of DoPT's OM No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11th August, 2011 and nomination to the Ministry of Women and Child Development, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar (CSL No. 7026), a regular Section Officer of CSS to the post of Under Secretary PB-3, 15,600—39,100 + Rs. 6,600/- (Grade Pay) on adhoc basis in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 09th September, 2011.

JAI KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 3rd October 2011

No. PF/S/150-Admn.—Consequent upon acceptance of the notice tendered under FR-56(K)(1) & (1-A) (a) of CCS (Pension) Rules, 1972 by Shri Swapan Kumar Goswami, Deputy Secretary of CSS (CSL No. 4496) in the Ministry of Youth Affairs & Sports, the President is pleased to allow him to retire voluntarily from Government Service w.e.f. 21.10.2011(FN).

GURCHARAN SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th September 2011

No. 11036/13/2009-PC&V—In supersession of this Ministry's notification No. 11036/9/2006-PC&V (ii) dated 14th July, 2009 and in terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Ministry of Tribal Affairs are hereby designated as Appellate Authority, for the Ministry of Tribal Affairs, in respect of the specific subject matters being handled by the respective Divisions mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Designation and Address	Telephone Number	Division/Section
1.	Dr. Bachittar Singh	Joint Secretary Room No. 722, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi	23073489	SG/Admn./General/PC&V/R&M/P&M / C P & R
2.	Dr. (Smt.) Sadhana Rout	Joint Secretary Room No. 741, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi	23383622	NGO/ Education/ C&LM
3.	Siladitya Choudhuri	Deputy Director General (Statistics), Room No. 241, August Kranti Bhavan R. K. Puram, New Delhi	26182094	Statistics
4.	A. N. Jha	Joint Secretary & Financial Adviser Room No. 637, 'A' Wing', Shastri Bhawan, New Delhi	23381730	IFD

J. K. POPLI, Director

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY****(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)**

New Delhi-110001, the 15th September 2011

No. 36-2/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Dinesh Arora, IAS (KL : 2002) as Private Secretary to the Minister of State for Communications & Information Technology (Shri Milind Deora) at the level of Deputy Secretary in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 25.07.2011 for a period of five (5) years or on co-terminus basis or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders whichever occurs earliest.

NIRMALA DEV, Under Secy.

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY**STANDARDISATION, TESTING & QUALITY
CERTIFICATION DIRECTORATE**

New Delhi-110003, the 23rd September 2011

No. 2(4)/2011-PA(TA)—The President is pleased to appoint Shri K. Y. Lakshmipathy, Superintendent of STQC Directorate, Department of Information Technology as Administrative Officer Grade II in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- w.e.f. 07-09-2011 (FN).

2. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment as Administrative Officer Grade-II.

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 30th September 2011

No. PF/66/NIC/2011/Adm.I—Dr. Kashi Nath, Scientist "G" (Deputy Director General), Emp. Code : 66, National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 30th September, 2011 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Director (Adm.I)

No. PF/546/NIC/2011/Adm.I—Shri C. V. Ganesan, Joint Director, Emp. Code : 546, National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 30th September, 2011 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Director (Adm.I)

No. PF/3155/NIC/2011/Adm.I—Shri Harish Chandra Nautiyal, Scientist "F", Emp. Code : 3155, National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2011 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Director (Adm.I)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 7th October 2011

No. A-12025/01/10-RS—The President is pleased to appoint Shri Satish Kumar Mittal, Senior Administrative Grade Officer of the Indian Railway Service of Engineers (IRSE) as Commissioner of Railway Safety in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- in the Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation on absorption basis with effect from 13th September, 2011 (FN) and until further orders.

2. The Officer will be on probation for a period of one year from the date of assumption of charge.

OMA NAND, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, the 30th September 2011

No. E(GP)2008/3/8—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' Officer of Traffic Department of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Traffic Service (IRTS), with effect from 30.12.2010 on the Railway mentioned as under :—

Panel for 2009-10

North Western Railway

Shri L. K. Vyas

V. K. GUPTA, Secretary
(Railway Board)

The 4th October 2011

No. E(GP)2006/3/5—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' Officer of Personnel Department of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Personnel Service (IRPS), with effect from 11.07.2008 on the Railway mentioned as under :—

Panel for 2007-08

East Central Railway

Shri Sudhir Mishra

V. K. GUPTA, Secretary
(Railway Board)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 26th September 2011

No. 34/2011 (F. No. 2/1/2010-Adm.II)—The President is pleased to appoint Shri M. N. Burad, Section Officer of the CSS borne on the cadre of Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department), to Grade-I of CSS (Under Secretary) in the Ministry of Power, on ad hoc basis, with effect from the forenoon of the 19th September, 2011, for a period upto 31.05.2012 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The aforesaid appointment shall be governed by the terms and conditions contained in the Department of Personnel & Training's Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11th August, 2011.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 29th September, 2011

No. 5/2011 (F. No. A-35018/3/2009-Adm.I)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 70 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the President is pleased to appoint Shri Ravinder, Chief Engineer, Central Electricity Authority, to the post of Member (Power System) in the Central Electricity Authority in the Scale of Pay of Rs. 67,000—79,000/- with the ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India, on deputation basis for a period of five years with effect from 21.09.2011, or till the date of superannuation, or until further orders, whichever is earliest.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

No. 6/2011 (F. No. A-35018/3/2009-Adm.I)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 70 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the President is pleased to appoint Shri K. P. Singh, Chief Engineer, Central Electricity Authority, to the post of Member (Thermal) in the Central Electricity Authority in the Scale of Pay of

Rs. 67,000—79,000/- with the ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India, on deputation basis for a period of five years with effect from 21.09.2011, or till the date of superannuation, or until further orders, whichever is earliest.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 3rd October 2011

No. 6/460/2011-Adm.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 20/9/2011-EO(SM-I) dated 30th September, 2011, Shri Gireesh B. Pradhan, IAS (MH : 77) has assumed charge of the post of Secretary, Ministry of New and Renewable Energy with effect from the forenoon of 1st October, 2011.

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF DRINKING WATER & SANITATION

New Delhi-110003, the 4th September 2011

No. A-13011/04/2011-Admn.—Consequent upon his selection by the Union Public Service Commission (UPSC), the President is pleased to appoint Shri Ratna Jyoti Dutta Chowdhury as Deputy Adviser (PHE) in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the Ministry of Drinking Water & Sanitation with effect from the forenoon of 16th August, 2011, on deputation basis initially for a period of three years.

K. NARAYANA REDDY, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi-110011, the 30th September 2011

No. K-11011/9/2006-DDIA—The President is pleased to appoint Shri Manish Kumar, IA&AS (91), as Chief Accounts Officer in the Delhi Development Authority at the level of Director, for a period upto 29.07.2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

N. T. JOSEPH, Under Secy. (DD IA)